

आज दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की 86वीं वार्षिक आम सभा मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के डॉ. गौर हरी सिंघानिया सभागार में संपन्न हुई।

वार्षिक आम सभा में वर्ष 2018-19 के लिए श्री बी.एम. गर्ग - अध्यक्ष एवं श्री अभिषेक सिंघानिया - उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अन्य सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :-

- 1- श्री ए.के. सरौगी
- 2- श्री आलोक नागोरी
- 3- श्री अनिल कुमार अग्रवाल
- 4- श्री अतुल कानोडिया
- 5- डॉ. जे.एन. गुप्ता
- 6- श्री के.जी. गुप्ता
- 7- डॉ. एम.पी. अग्रवाल
- 8- श्री मयंक खन्ना
- 9- श्री मुकुल टंडन
- 10- श्री आर.के. अग्रवाल
- 11- श्री सुधीन्द्र कुमार जैन
- 12- श्री सुनील खन्ना
- 13- श्री सुशील कानोडिया
- 14- श्री विनीत चंद्रा
- 15- श्री योगेश अग्रवाल

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बी.एम. गर्ग ने अपने भाषण में मर्चेट्स चैम्बर के पूर्वअध्यक्ष बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंघानिया, मर्चेट्स चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण, सैक्रीटेरियट के स्टाफ, सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह अपनी ओर से कृतज्ञता जापित करते हैं कि उनको अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाह करने की जिम्मेदारी पूरा करने का भार सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व अध्यक्षगणों द्वारा किये गए समस्त अच्छे कार्यों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चैम्बर की गतिविधियों को नई उचाईयों तक पहुंचाने का यथासम्भव प्रयास करेंगे तथा इस कार्य हेतु मुझे सभी स्नेही-बंधुओं के सुझावों व सहयोग की आवश्यकता होगी। श्री गर्ग ने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी विशिष्ट जनों व मर्चेट्स चैम्बर के समस्त सदस्यगणों का आशिर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अन्त में चैम्बर के सभी पदाधिकारियों, स्नेही सदस्यगणों, सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद दिया। श्री गर्ग ने अपनी वाणी को "जय श्री राधे-राधे!" के साथ विराम दिया।

उपस्थित सदस्यों श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री सुरेश गर्ग, श्री प्रताप अग्रवाल, श्री मुकुल टंडन, श्री अनिल अग्रवाल, श्री ए.के. सरौगी ने श्री बी.एम. गर्ग एवं श्री अभिषेक सिंघानिया, को बधाई दिया।

डॉ. जे.एन. गुप्ता ने आये हुए सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

श्रीमान सम्पादक जी,

प्रिय महोदय,

कृपया मार्चट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की 86वीं वार्षिक आम सभा की प्रेस-विज्ञप्ति को संलग्न फोटोग्राफ के साथ अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करने की कृपा करें।

हार्दिक धन्यवाद,

आपका सदभावी,

मार्चट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश